



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY  
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-Section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 541]  
No. 541]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 8, 1978/अग्रहायण 17, 1900  
NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 8, 1978/AGRAHAYANA 17, 1900

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके।  
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation.

## भारत निर्वाचन आयोग

### अधिसूचनाएं

नई दिल्ली, 8 दिसम्बर, 1978

का०प्रा० (घ) 710.—प्रांश प्रदेश राज्य के 32-सिद्धीपेट (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए निर्वाचित सदस्य श्री जी० वेंकटस्वामी द्वारा त्यागपत्र दे दिए जाने के कारण उस सभा में एक स्थान रिक्त हो गया है।

अतः, अब, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 149 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग उक्त निर्वाचन-क्षेत्र से एतद्वारा अपेक्षा करता है कि वह ऐसी हुई रिक्ति को भरने के लिए 11 जनवरी, 1979 (बुधस्वतिवार) से पूर्व, उक्त अधिनियम के और तत्वीन बनाए गए नियमों और आदेशों के उपबन्धों के अनुसार एक अनुसूचित जाति का व्यक्ति निर्वाचित करे।

[सं० 100/प्रा० प्र०/लो० सं०/2/78(1)]

## ELECTION COMMISSION OF INDIA NOTIFICATIONS

New Delhi, the 8th December, 1978

S.O. 710(E).—Whereas a vacancy has occurred in the House of the People by reason of the resignation of Shri G. Venkatswamy, a member elected to that House from 32-Siddipet (SC) Parliamentary Constituency in the State of Andhra Pradesh;

Now, therefore, in pursuance of the provisions of section 149 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby calls upon the said constituency to elect before 11 January, 1979 (Thursday), in accordance with the provisions of the said Act and of

the Rules and Orders made thereunder, a person belonging to the Scheduled Castes to fill the said vacancy.

[No. 100/AP-HP/2/78(1)]

का०प्रा० (घ) 711.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 30 के उपबन्धों के अनुसरण में, निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/प्रा० प्र०-लो० सं०/2/78(1), तारीख 8 दिसम्बर, 1978 के अनुसरण में प्रांश प्रदेश के 32-सिद्धीपेट (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र में होने वाले उप-निर्वाचन के बारे में:—

(क) नामनिर्देशन करने के लिए अन्तिम तारीख—15 दिसम्बर, 1978 (शुक्रवार);

(ख) नामनिर्देशनों की संवीक्षा के लिए तारीख—16 दिसम्बर, 1978 (शनिवार);

(ग) अभ्यर्थिताएं वापस लेने के लिए अन्तिम तारीख—18 दिसम्बर, 1978 (सोमवार);

(घ) वह तारीख जिसको, यदि आवश्यक हो, तो मतदान होगा—7 जनवरी, 1979 (रविवार) और

(ङ) वह तारीख जिसके पूर्व निर्वाचन समाप्त कर दिया जाएगा—11 जनवरी, 1979 (बुधस्वतिवार);  
एतद्वारा नियत करता है।

[सं० 100/प्रा० प्र०-लो० सं०/2/78(2)]

S.O. 711(E).—In pursuance of the provisions of section 30 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby appoints, with respect to

the by-election to be held in 32-Siddipet (SC), parliamentary constituency in the State of Andhra Pradesh in pursuance of its notification No. 100/AP-HP/2/78(1), dated 8th December, 1978,—

- (a) 15 December, 1978 (Friday), as the last date for making nominations;
- (b) 16 December, 1978 (Saturday), as the date for the scrutiny of nominations;
- (c) 18 December, 1978 (Monday), as the last date for the withdrawal of candidatures,
- (d) 7 January, 1979 (Sunday), as the date on which a poll shall, if necessary, be taken; and
- (e) 11 January, 1979 (Thursday), as the date before which the election shall be completed.

[No. 100/AP-HP/2/78(2)]

का०भा० (अ) 712.—लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 (1951 का 43) की धारा 56 के अनुसरण में निर्वाचन आयोग अपनी अधिसूचना सं० 100/आ०प्र०-सो०-सं०/2/78(1), तारीख 8 दिसम्बर,

1978 के अनुसरण में, 32-सिदीपेट (अ०जा०) संसदीय निर्वाचन-क्षेत्र से लोक सभा के लिए होने वाले उपनिर्वाचन के लिए 8.00 बजे पूर्वाह्न से 4-00 बजे अपराह्न तक का समय उस समय के रूप में एतद्वारा नियत करता है, जिसके दौरान, यदि आवश्यक हो तो, मतदान होगा।

[सं० 100/आ०प्र०-सो०-सं०/2/78(3)]

आदेश से,

टी० नागरथनम, सचिव।

S.O. 712(E).—In pursuance of section 56 of the Representation of the People Act, 1951 (43 of 1951), the Election Commission hereby fixes 8.00 a.m. to 4.00 p.m. as the hours during which a poll shall, if necessary, be taken for the by-election to the House of the People from 32-Siddipet (SC) parliamentary constituency to be held in pursuance of its notification No. 100/AP-HP/2/78(1), dated 8 December, 1978.

[No. 100/AP-HP/2/78(3)]

By order,

T. N. NAGARATHAN, Secy.